

B. Com. (Part-II) Examination
MONEY AND FINANCIAL SYSTEM
(Commerce)

Time : Three hours]

[Maximum Marks : 70

Note :—(1) All questions are compulsory.
(2) All questions carry equal marks.

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | (a) Define and explain money. | 4 |
| | (b) Explain the secondary function of money. | 4 |
| | (c) What is Credit Money? | 3 |
| | (d) What is meant by non-convertible paper currency? | 3 |

OR

- | | | |
|----|--|----|
| | (e) State any four disadvantages of paper currency. | 4 |
| | (f) Explain any four assumptions of fisher's quantity theory of money. | 4 |
| | (g) State the characteristics of deflation. | 3 |
| | (h) State the causes of inflation. | 3 |
| 2. | (a) Explain the features and importance of Indian Money Market. | 14 |

OR

- | | | |
|----|---|----|
| | (b) Explain the objectives and functions of SEBI. | 14 |
| 3. | (a) Explain the concept of Financial System. | 4 |
| | (b) State the advantages of Monetary Policy. | 4 |
| | (c) What do you mean by Financial System? | 3 |
| | (d) What do you mean by Fiscal Policy? | 3 |

OR

- | | | |
|----|--|----|
| | (e) Explain in brief Indian Financial System. | 4 |
| | (f) Write the limitations of Monetary Policy. | 4 |
| | (g) Explain the main kinds of finance. | 3 |
| | (h) Explain the objectives of Fiscal Policy. | 3 |
| 4. | (a) What is e-banking? Give the advantages and disadvantages of e-banking. | 14 |

OR

- | | | |
|----|--|----|
| | (b) State the history of Indian Banking System. Explain in detail. | 14 |
| 5. | (a) Explain in brief the regulation of Money Market. | 4 |
| | (b) Explain the credit control by RBI. | 4 |
| | (c) Discuss the features of Stock Exchange. | 3 |
| | (d) Explain the Repo-Rate and Reverse Repo-Rate. | 3 |

OR

- | | | |
|--|---|---|
| | (e) State the RBI's quantitative instruments of credit control. | 4 |
| | (f) Explain the administrative rate of interest. | 4 |
| | (g) State the market determined rate. | 3 |
| | (h) State the importance of Stock Exchange. | 3 |

B. Com. (Part-II) Examination
MONEY AND FINANCIAL SYSTEM
(Commerce)

Time : Three hours]

[Maximum Marks : 70

(मराठी माध्यम)

सूचना :— (1) सर्व प्रश्न सोडविणे अनिवार्य आहे
(2) सर्व प्रश्नांना समान गुण आहेत.

1. (अ) मूदेची व्याख्या देवून स्पष्ट करा. 4
(ब) मूदेची सहाय्यक कार्ये स्पष्ट करा. 4
(क) पत्रमूद्रा (Credit Card) म्हणजे काय ? 3
(ड) अपरिवर्तनीय पत्रमूद्रा यापासून आपणास काय अर्थबोध होतो ? 3
किंवा
(इ) पत्रमूदेचे कोणतेही चार तोटे सांगा. 4
(फ) फ्रीशरच्या मुद्रा परिमाण सिद्धांताची कोणतेही चार गृहीते स्पष्ट करा. 4
(ग) अस्फीतीची लक्षणे सांगा 3
(ह) स्फीतीची कारणे सांगा. 3
2. (अ) भारतीय नाणे बाजाराची वैशिष्ट्ये आणि महत्व स्पष्ट करा. 14
किंवा
(ब) 'सेबी' ची उद्दिष्टे आणि कार्ये स्पष्ट करा. (भारतीय प्रतिभूती व विनीमय मंडळाची) 14
3. (अ) वित्तीय प्रणालीची संकल्पना स्पष्ट करा. 4
(ब) मोदीक धोरणाचे फायदे सांगा 4
(क) वित्तीय प्रणालीचा पासून काय अर्थबोध होतो ? 3
(ड) राजकोषीय धोरण यापासून आपणास काय अर्थबोध होतो ? 3
किंवा
(इ) भारतीय वित्तीय प्रणालीला थोडक्यात स्पष्ट करा. 4
(फ) मोदीक धोरणाच्या मर्यादा लिहा. 4
(ग) वित्ताचे मुख्य प्रकार स्पष्ट करा. 3
(ह) राजकोषीय धोरणाची उद्दिष्ट्ये स्पष्ट करा. 3
4. (अ) ई-बँकिंग म्हणजे काय ? ई-बँकिंगचे फायदे व तोटे स्पष्ट करा. 14
किंवा
(ब) भारतीय अधिकोषन व्यवस्थेचा इतिहास सविस्तर सांगा. 14
5. (अ) मूद्रा बाजाराचे नियमन थोडक्यात स्पष्ट करा. 4
(ब) रिझर्व बँकेचे प्रत्यय नियंत्रन स्पष्ट करा. 4
(क) स्कंध विपणीच्या वैशिष्ट्यांची चर्चा करा. 3
(ड) रेपोदर व रिव्हर्स रेपो दर स्पष्ट करा 3
किंवा
(इ) रिझर्व बँकेच्या प्रत्यय नियंत्रनाची संख्यात्मक साधने सांगा. 4
(फ) व्याजाचा प्रशासकीय दर स्पष्ट करा. 4
(ग) बाजार निर्धारित व्याजदर सांगा. 3
(ह) स्कंध विपणीचे महत्व सांगा. 3

B. Com. (Part-II) Examination
MONEY AND FINANCIAL SYSTEM
(Commerce)

Time : Three hours]

[Maximum Marks : 70

(हिन्दी माध्यम)

सूचना :— (1) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

(2) सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. (अ) मुद्रा की परिभाषा देकर स्पष्ट कीजिए। 4
(ब) मुद्रा की दुय्यम कार्य स्पष्ट कीजिए। 4
(क) पञ्चमुद्रा (Credit Money) याने क्या ? 3
(ड) अपरिवर्तनीय पञ्चमुद्रा इससे आपको क्या अर्थबोध होता है ? 3
अथवा
(इ) पञ्चमुद्रा के कोई भी चार दोष बताइए। 4
(फ) फिशर की मुद्रा परिमाणशीलता सिद्धांत की कोई चार मान्यताएं स्पष्ट कीजिए। 4
(ग) अस्फीती के लक्षण बताइए। 3
(ह) स्फीती के कारण बताइए। 3
2. (अ) भारतीय मुद्रा बाजार की वैशिष्ट्ये और महत्व स्पष्ट कीजिए। 14
अथवा
(ब) 'सेबी' के उद्देश्य एवं कार्य स्पष्ट कीजिए। 14
3. (अ) वित्तीय प्रणाली की संकल्पना स्पष्ट कीजिए। 4
(ब) मौद्रिक नीति के लाभ बताइए। 4
(क) वित्तीय प्रणाली से क्या अर्थबोध होता है ? 3
(ड) राजकोषीय घोरण से आपको क्या अर्थबोध होता है ? 3
अथवा
(इ) भारतीय वित्तीय प्रणाली को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। 4
(फ) वित्त नीति की मर्यादाएं लिखिए। 4
(ग) वित्त के प्रमुख प्रकार स्पष्ट कीजिए। 3
(ह) राजकोषीय नीति के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। 3
4. (अ) ई-बैंकिंग याने क्या ? ई-बैंकिंग के लाभ एवं हानियां स्पष्ट कीजिए। 14
अथवा
(ब) भारतीय बैंकिंग प्रणाली का इतिहास विस्तार से बताइए। 14
5. (अ) मुद्रा विपणी का नियमन को संक्षेप में लिखिए। 4
(ब) रिझर्व बैंक के साख नियंत्रण को स्पष्ट कीजिए। 4
(क) शेयर बाजार के विशेषताओं की चर्चा कीजिए। 3
(ड) रेपो रेट एवं रिव्हर्स रेपा रेट स्पष्ट कीजिए। 3
अथवा
(इ) रिझर्व बैंक के ऋण (credit) नियंत्रण के संख्यात्मक साधन बताइए। 4
(फ) ब्याज के प्रशासकीय दर को स्पष्ट कीजिए। 4
(ग) बाजार निर्धारित ब्याजदर को बताइए। 3
(ह) शेयर बाजार के महत्व बताइए। 3

